

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १६] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी २६, १९६८/माघ ६, १८८९

No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 26, 1968/MAGHA 6, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January 1968

No. 10-Pres/66.—The President is pleased to make the following honours.

PADMA VIBHUSHAN

Shri Kirpal Singh, Formerly Chairman, Railway Board, Ministry of Railways Government of India, New Delhi.

Shri Kuthur Vaidyanatha Kalyana Sundaram, Formerly Chief Election Commissioner, Government of India, New Delhi.

Dr. Madhav Shrihari Aney, Formerly Governor of Bihar.

Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis, Honorary Statistical Adviser to the Cabinet, New Delhi.

Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Astrophysicist, Laboratory for Astrophysics and Space Research, Chicago, U.S.A.

PADMA BHUSHAN

Dr. Benjamin Peary Pal, Director-General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Shri Bismillah Khan, Musician, Uttar Pradesh.

Dr. Brahm Prakash, Director-Metallurgy Group, Bhabha Atomic Research Centre Bombay.

Dr. Calyampudi Radhakrishna Rao, Director, School of Training, Indian Statistical Institute, Calcutta.

Shri Gopalan Narasimhan, Journalist, Madras.

Shri Govinda Kurup Sankara Kurup, Malayalam Poet, Kerala

Shri Gujar Mal Modi, Industrialist, Uttar Pradesh.

Dr. Jyotish Chandra Ray, Emeritus Scientist, Indian Institute of Experimental Medicine, Calcutta.

Dr. Kotha Sivarami Kuranth, Novelist, Dramatist and Actor, Mysore.

Dr. Mambillikalathil Govinda Kumar Menon, Director, Tata Institute of Fundamental Research, Bombay.

Shri Mamidipudi Venkatarangayya, Teacher, Andhra Pradesh

Shri Manchakkattuvalasu Palanivelappa Gounder Periaswamy Thooran, Family Writer, Madras

Shri Mansukhlal Atmaram Master, Member, National Shipping Board, Bombay.

Shri Manukonda Chalapathi Rao, Journalist, New Delhi

Dr. Manadas Rudraswamy, Educationist, Madras

Shrimati Mary Clubwala Jadhav, Social Worker, Madras

Dr. Murugappa Channaveerappa Modi, Eye Surgeon, Mysore

Dr. Prabhu Lal Bhatnagar Head of the Department of Mathematics Institute of Science, Bangalore.

Shri Radhanath Rath, Journalist, Orissa.

Shri Raghupati Sahai 'Firaq', Urdu Writer, Uttar Pradesh.

Lieutenant General Sam Hormusji Framji Jamshedji Manekshaw, General Officer Commanding-in-Chief, Eastern Command.

Shri Sarda Prasad Varma, Formerly Director, Intelligence Bureau, New Delhi.

Shri Shamprasad Rupshankar Vasavada, Trade Union Leader, Gujarat

Shri Shripad Damodar Satwalekar, Sanskrit Scholar, Gujarat.

Dr. Sudhir Ranjan Sen Gupta Formerly Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur.

Shri Vishnu Sakhararam Khandekar, Marathi Writer, Maharashtra

Acharya Vishva Bandhu, Sanskrit Scholar, Punjab.

Shri Waman Bapuji Metre, Director, Board of Oil India Limited, New Delhi

PADMA SHRI

Dr. Abhin Chandra Rao, Social Worker, Orissa.

Shrimati Akhtari Bai Faizabadi (Begum Akhtar), Musician, Uttar Pradesh.

Shri Akhtar Mohiuddin, Kashmiri Writer, Jammu and Kashmir

Shri Akkineni Nageswara Rao, Film Artist, Andhra Pradesh.

Shri Amar Nath Gupta, Social Worker, Delhi.

Pandit Ayodhya Prasad, Mridang Player, Uttar Pradesh.

Shri Balasaheb Amgonda Patil, Journalist and Social Reformer, Maharashtra.

Shri Bhaurao Krishnarao alias Dadasaheb Gaikwad, Social Worker, Maharashtra.

Shri Calambur Sivaramamurti, Director, National Museum, New Delhi.

Shri Dattatreya Ramachandra Bendre, Kannada Poet, Mysore.

Shri Devachand Chhaganlal Shah, Social Worker, Maharashtra.

Shri Devi Lal Samar, Musician and Dancer, Rajasthan.

Shri Donthy Naranappa Krishnalah Setty, Social Worker, Mysore.

Shrimati Durga Khote, Film Actress, Maharashtra.

Dr. G. Narasimhan, Social Worker, Madras

Dr. Govind Pandurang Kane, Officer on Special Duty, Department of Industrial Development, Government of India, New Delhi.

Shri Jaikishan Dahyabhai Panchal, Musician, Maharashtra.

Shri Jehangir Shapurji Bhowmagary, Formerly Chief Adviser (Films), Government of India, New Delhi.

Shri Joseph Harold, Officer on Special Duty (Music) Ministry of Defence, Government of India, New Delhi.

Shri Kedar Ghosh, Journalist, West Bengal.

Shri Krishna Swarup Mulkick, Formerly Deputy Director-General, All India Radio, New Delhi.

Shri Lakshman Dev, Chairman, Uttar Pradesh Electricity Board, Lucknow.

Shri Man Singh Mahobab Singh Rana, Senior Architect, Central Public Works Department, New Delhi.

Shri Manibhai Bhumbhai Desai, Social Worker, Maharashtra.

Shri Mantosh Soodhi, General Manager, Heavy Vehicles Factory, Avadi.

Shri Marudhar Ramchandra Achrekar, Artist, Maharashtra.

Shri Nandamuri Taraka Rama Rao, Film Artist, Andhra Pradesh.

Shri Narinder Nath Mohan, Industrialist, Himachal Pradesh.

Shri Narendra Singh Dev, Agriculturist, Madhya Pradesh.

Shri Nikhil Banerjee, Musician, West Bengal.

Dr. Raja Ramanna, Director, Physics Group, Bhabha Atomic Research Centre, Bombay.

Shrimati Shalini Moghe, Social Worker, Madhya Pradesh.

Shri Sambhu Nath Mukherjee, Social Worker, West Bengal.

Shri Shamrao Sakhararam Kadam, Co-operator, Maharashtra.

Shri Shankar Singh Raghuvanshi, Musician, Maharashtra.

Shrimati Sharan Rani Backliwal, Musician, New Delhi.

Shri Sirkazhi Ramaswamy Iyer Balasubrahmanyam, Archaeologist, Madras.

Shri Sis Ram Ola, Social Worker, Rajasthan.

Shrimati Sudha Venkatasiva Reddy, Social Worker, Mysore.

Shri Sudheer Sojwal, Deputy Director (Designs), Weavers' Service Centre, All India Handloom Board, Bombay.

Rajkumari Sumitra Devi, Social Worker, Haryana.

Shri Sunil Dutt, Film Actor, Maharashtra.

Shrimati Vijayantimala, Film Actress, Maharashtra.

Kumari Yamini Krishnamurthi, Dancer, Madras.

NAGENDRA SINGH.

Secretary to the President.

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी 1968

सं० 10-प्रेष/68.—राष्ट्रपति निम्नलिखित उपाधियाँ प्रदान करते हैं :—

पद्मविभूषण

श्री किरपाल सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

श्री कृष्ण वैद्यनाथ कल्याण सुन्दरम, भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

डा० माधव श्रीहरि अणे, भूतपूर्व बिहार राज्यपाल ।

प्रोफेसर प्रवन्त चन्द्र महालनोबीस, अवैज्ञानिक सांख्यिकीय सलाहकार मन्त्रि-मंडल, नई दिल्ली ।
 डा० सुब्रह्मण्यम चन्द्रशेखर ज्योति-भौतिकविद्, ज्योति-भौतिकी तथा अन्तरिक्ष अनुसन्धान
 प्रयोगशाला शिकाना, मध्यक राज्य अमेरिका ।

तत्र भूषण

आ० वैजामिन पाप्पे पाल, महानदेशक, भाग्योद्य कृषि प्रतुप-धान रिपद नई दिक्की ।

श्री विष्मिल्लाह झां, संगीतज्ञ, उत्तर प्रदेश ।

डा० ब्रह्म प्रकाश, निदेशक धातुविज्ञान अन्भाग, भाभा अणु अन्वयान केन्द्र, मम्बई

डा० कल्याणपुत्री रावठा, जग राव निदेशक, प्रशिक्षण विद्यालय भारतीय मांडविकीय संस्थान,
कलकत्ता ।

श्री गोपालन नरसिहन, पत्रकार, मद्रास ।

श्री गोविन्द कृष्ण शंकर कृष्ण, मलयालम कवि, केरल ।

श्री गुजरात मोदी. उद्योगपति, उत्तर प्रदेश ।

डा० ज्ञानियन्त्र राय, प्रकाशप्रान्त वैज्ञानिक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मेंडल मेडिसिन, कलकत्ता ।

डा० काटा शिवराम कर्कर, उपाध्यायकार नाटककार तथा अभिनेता मैसूर ।

डा० मर्मिन्त्रलोकनाथन गार्गवः कुमार मेतन, निदेशक, डाटा मौलिक प्रतुमन्त्रान जाला
बम्बई ।

श्री भर्तृहरिप्रसाद वेंकटराय। अध्यापक आन्ध्र प्रदेश ।

श्री सचचक्रप्रवृत्तनु सदानवेन ।। गौडर पे, रथाम्बामा थूरन तमिल लेखक, मद्रास ।

श्री सत्सुतवत्सलप्राप्तिसंगमसागरः अथ नृपतवर्णिताष्टोत्तरशतिका

श्री मण्डोदा नारायण गुरु, पत्रकार, नई दिल्ली ।

डा० एमिना गम रत्ना दामि, शिक्षाशास्त्री, मद्रास ।

श्रीमत्. मेरा स्वभाव। ताश्रय, मासिक कार्यकर्त्री, मद्रास।

डा० सुभाषचन्द्र बोस, नेत्र 'त्रिकुल', मैसूर ।

डा० प्रभु लाल मदनगिर गणित विभागाध्यक्ष । विज्ञान संस्थान बमलौर ।

श्री राधानाथ स्थ पत्रकार, उडुपी ।

श्री रघुपात महायि "फिगक" उर्व लेखक उत्तर प्रदेश ।

लेपिट० जतरल गाम द्वारमुवजी फामजी जमशेदजी माणिक णाह जतरल आफिसर कर्माडग
इत-चोफ पूर्वी कमान ।

श्री गरद प्रसाद वर्मा, भूतपूर्व निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ व्यूरा, नई दिल्ली

श्री ध्याम प्रसाद रूपशर्कर वसवदा, मशहूर संघ नेता, गजरात ।

श्री श्रीपद दामोदर मनवालेकर, संस्कृत विद्वान्, गुजरात ।

डा० सुधीर रजन सेन गुप्त, भूतपूर्व निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, खड़गपुर ।
 श्री विष्णु सखाराम खंडेकर, मराठी लेखक, महाराष्ट्र ।
 आचार्य विश्व बन्धु, संस्कृत विद्वान, पंजाब ।
 श्री यमन बापुप्रो मेत्रे, निदेशक बोर्ड आफ आयल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।

पद्म श्री

डा० अभिन चन्द्र राव, सामाजिक कार्यकर्ता, उडीसा ।
 श्रीमती अश्वतरी बाई कृष्णाबायी (बेगम अश्वतर), संगीतज्ञा, उत्तर प्रदेश ।
 श्री अश्वतर मुखर्जी, काश्मीरी लेखक, जम्मू तथा काश्मीर ।
 श्री अक्कोतेनी नागेश्वर राव, चलचित्र कलाकार, आन्ध्र प्रदेश ।
 श्री अमर नाथ गुप्त, सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली ।
 पंडित अयोध्या प्रसाद, मृदंग वादक, उत्तर प्रदेश ।
 श्री बालासाहिब अमगौडा पाटिल, पत्रकार तथा समाज सुधारक, महाराष्ट्र ।
 श्री भाऊराव कृष्णाराव उर्फ दादासाहिब गायकवाड़, सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र ।
 श्री कलम्बूर शिवराममूर्ति, निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
 श्री दत्तेत्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे, कन्नड़ कवि, मैसूर ।
 श्री देवचन्द छगनलाल शाह, सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र ।
 श्री देवी लाल समर, संगीतज्ञ तथा नर्तक, राजस्थान ।
 श्री डोन्थी नरनप्पा कृष्णम्मा सेट्टी, सामाजिक कार्यकर्ता, मैसूर ।
 श्रीमती दुर्गा खोटे, चलचित्र अभिनेत्री, महाराष्ट्र ।
 डा० जी० नरसिंहन, सामाजिक कार्यकर्ता, मद्रास ।
 डा० गोविन्द पांडुरंग कणे, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, औद्योगिक विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
 श्री जयकिशन दयाभाई पाचाल, संगीतज्ञ, महाराष्ट्र ।
 श्री जहागीर शपुरजी भवनागरी, भूतपूर्व मुख्य सलाहकार (चलचित्र), भारत सरकार, नई दिल्ली ।
 श्री जजफ़ हेरलड, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, (संगीत), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
 श्री केदार घोष, पत्रकार, पश्चिम बंगाल ।
 श्री कृष्णस्वरूप मलिक, भूतपूर्व उप-महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली ।
 श्री लक्ष्मण देव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, विद्युत मंडल, लखनऊ ।
 श्री मान सिंह महोबत सिंह राणा, उच्चवास्तुविद, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।
 श्री मणिभाई भीमभाई वेसाई, सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र ।

श्री मन्ताण सौधी, महा प्रबन्धक, भारी गाड़ियों का कारखाना, अवड़ी ।

श्री मुरलीधर रामचन्द्र अचरेकर, कलाकार, महाराष्ट्र ।

श्री नंदनुरी तारक राम राव, चलचित्र कलाकार, आन्ध्र प्रदेश ।

श्री नरेन्द्र नाथ मोहन, उद्योगपति, हिमाचल प्रदेश ।

श्री नरेन्द्र सिंह देव, कृषक, मध्य प्रदेश ।

श्री निखिल बनर्जी, संगीतज्ञ, पश्चिम बंगाल ।

डा० राजा रामभद्र, निदेशक, भौतिक अनुभाग, भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई ।

श्रीमती शलिनी मोघे, सामाजिक कार्यकर्त्री, मध्य प्रदेश ।

श्री शम्भूनाथ मुखर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल ।

श्री श्यामराव सखाराम राव कदम, सहकारी, महाराष्ट्र ।

श्री शंकर सिंह रघुवंशी, संगीतज्ञ, महाराष्ट्र ।

श्रीमती शरण रानी बाक्लोवाल, संगीतज्ञा, नई दिल्ली ।

श्री सिरकड़ी रामास्वामी अय्यर बालसुब्रह्मण्यम, पुरातत्त्वज्ञ, मद्रास ।

श्री सीस राम ओला, सामाजिक कार्यकर्ता, राजस्थान ।

श्रीमती सुधा बैकटशिवा रेड्डी, सामाजिक कार्यकर्त्री, मैसूर ।

श्री सुधीर सोजवाल, उप-निदेशक (डिजाइन), बुनकर सेवा केन्द्र, अखिल भारतीय करषा मंडल, बम्बई ।

राजकुमारी मुमित्रा देवी, सामाजिक कार्यकर्त्री, हरियाणा ।

श्री सुनील दत्त, चलचित्र अभिनेता, महाराष्ट्र ।

श्रीमती वैजयन्तीमाला, चलचित्र अभिनेत्री, महाराष्ट्र ।

कुमारी यामिनी कृष्णामूर्ति, नर्तकी, मद्रास ।

नागेन्द्र सिंह,
राष्ट्रपति का सचिव ।